

वैदेशिक क्षेत्र

पिछले वर्ष की महामारी से प्रेरित मंदी के बाद 2021-22 में विदेशी व्यापार में मजबूती से सुधार हुआ और मजबूत पूँजी प्रवाह से विदेशी मुद्रा भंडार का तेजी से संचय हुआ। चालू वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में भारत के विदेशी क्षेत्र की समुत्थान-शक्ति(लचीलापन), अर्थव्यवस्था में विकास के पुनरुद्धार के लिए एक शुभ संकेत है हालांकि, 2022-23 के दौरान, कोविड -19 के नए संक्रामक रूपों के साथ वैश्विक तरलता के कड़े होने, वैश्विक पण्य की कीमतों में निरंतर अस्थिरता, और उच्च माल ढुलाई लागत, भारत के लिए एक चुनौती हो सकती है।

घरेलू गतिविधि में पुनरुद्धार के साथ वैश्विक मांग के पुनः बढ़ने के कारण, भारतीय पण्य के निर्यात और आयात में जोरदार उछाल आया और ये चालू वित्त वर्ष के दौरान पूर्व-कोविड स्तरों को पार कर गए। सरकार द्वारा समय पर की गई पहल से भी निर्यात के पुनरुद्धार को सहायता मिली। अप्रैल-नवंबर, 2021 में अमेरिका के बाद संयुक्त अरब अमीरात और चीन शीर्ष निर्यात गंतव्य बने रहे, जबकि चीन, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़े आयात स्रोत थे। कमजोर पर्यटन राजस्व के बावजूद, अप्रैल-दिसंबर, 2021 के दौरान सेवाओं से होने वाली निवल आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी, ऐसा मजबूत सॉफ्टवेयर सेवाओं और व्यावसायिक आय के कारण हुआ था, जब आय और भुगतान दोनों ही अपने पूर्व-महामारी के स्तरों को पार गए थे।

भारत के चालू खाता शेष में 2021-22 की पहली छमाही (H1) में सकल घरेलू उत्पाद के 0.2 प्रतिशत जितना घाटा हुआ, जिसका मुख्य कारण व्यापार खाते का घाटा था। 2021-22 की पहली छमाही (H1) में विदेशी निवेश के निरंतर अंतर्वाह, निवल विदेशी वाणिज्यिक उधारों राशियों(ECB) के पुनः बढ़ने, उच्च बैंकिंग पूँजी और अतिरिक्त विशेष आहरण अधिकार (SDR) आवंटन के कारण, निवल पूँजी प्रवाह: 65.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्च स्तर पर था। सितंबर 2021 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण बढ़कर 593.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो एक साल पहले 556.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें बड़े वाणिज्यिक उधार के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अतिरिक्त एसडीआर आवंटन सम्मिलित हैं।

मजबूत पूँजी प्रवाह मामूली चालू खाता घाटे को वित्तपोषित करने के लिए पर्याप्त था, जिसके परिणामस्वरूप 2021-22 की पहली छमाही में कुल भुगतान संतुलन (बीओपी) 63.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अधिशेष हुआ, जिसके कारण एक संवर्धित विदेशी मुद्रा भंडार विकास क्रम में एक महत्वपूर्ण बिंदु (मील के पत्थर) यूएस के 600 अरब डॉलर को पार कर गया और 31 दिसंबर, 2021 तक 633.6 अरब अमेरिकी डॉलर को छू गया। नवंबर 2021 के अंत तक, भारत दुनिया में चीन, जापान और स्विटजरलैंड के बाद चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक था।


भंडार में एक बड़ी वृद्धि के कारण बाहरी भेद्यता संकेतकों में सुधार हुआ जैसे कि कुल विदेशी ऋण के लिए विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार के लिए अल्पकालिक ऋण, आदि। भारत का बाहरी क्षेत्र वैश्विक तरलता के किसी भी समापन (अनवाइंडिंग) का सामना करने के लिए समुत्थानशील/लचीला है।

व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति के तेजी से सामान्यीकरण की संभावना से उत्पन्न होने वाली वैश्विक तरलता के किसी भी समापन (अनवाइंडिंग) का सामना करने के लिए भारत का बाहरी क्षेत्र लचीला है, जिसमें मुद्रास्फीति दबावों के जवाब में फेड द्वारा की गयी अनवाइंडिंग सम्मिलित है।

वैश्विक आर्थिक वातावरण

3.1 कोविड-19 महामारी ने 2021 के दौरान वैश्विक आर्थिक वातावरण को प्रभावित करना जारी रखा। कैलेंडर वर्ष 2021 की पहली छमाही (H1) में वैश्विक आर्थिक गतिविधि में तेजी देखी गई, जिसने वाणिज्य/पण्य व्यापार को अपने पूर्व-महामारी शिखर से ऊपर उठा दिया। इसे दर्शाते हुए, 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (WEO) रिपोर्ट के अक्टूबर 2021 संस्करण में, वस्तुओं और सेवाओं में वैश्विक व्यापार की मात्रा में 9.7 प्रतिशत की उच्च वृद्धि का अनुमान लगाया, जो अनुमानित वैश्विक सुधार के अनुरूप 2022 में कुछ घट कर 6.7 प्रतिशत तक रह सकती है। विश्व व्यापार संगठन (WTO) ने अपनी अक्टूबर 2021 की रिपोर्ट में, 2021 में वैश्विक व्यापारिक व्यापार की मात्रा में वृद्धि के लिए अपने पूर्वानुमान को 10.8 प्रतिशत तक बढ़ा दिया, इसके बाद 2022 में यह वृद्धि कुछ घट कर 4.7 प्रतिशत तक रह सकती है (चित्र 1)।

चित्र 1: विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि का पूर्वानुमान



स्रोत: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन

नोट: पूर्वानुमान: छायांकित क्षेत्र अनुमानित वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है।

3.2 वैश्विक आर्थिक गतिविधि में पुनरुद्धार के अतिरिक्त, 2021 की पहली छमाही में वैश्विक पण्य व्यापार की मात्रा के लिए उच्च विकास दर को पिछले वर्ष की मंदी से भी सहायता प्राप्त हुई, जोकि 2020 की दूसरी तिमाही में नीचे पहुँच गयी थी। डेल्टा वेरिएंट के तेजी से संक्रमित करने और नए वेरिएंट के खतरों के कारण 2021 की पहली दो तिमाहियों के दौरान विकास दर गति की तेजी तीसरी तिमाही (Q3) से फिर से कमज़ोर हो गयी। इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की महत्वपूर्ण कड़ियाँ टूट गयीं, जिसके परिणामस्वरूप अपेक्षा से अधिक समय तक आपूर्ति बाधित हुई, जिससे वैश्विक सुधार पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। 2021 के दौरान अमेरिकी डॉलर के सांकेतिक मूल्य में वर्ल्ड ट्रेड वॉल्यूम की दर में, प्रथम तिमाही (Q1) और द्वितीय तिमाही (Q2) की वृद्धि के बाद तृतीय तिमाही (Q3) में कुछ कमी हुई।

3.3 फिर भी, यदि चौथी तिमाही के आंकड़ों में तेजी आ जाए तो पूरे 2021 के लिए पण्य व्यापार की मात्रा में 10.8 प्रतिशत की वृद्धि की विश्व व्यापार संगठन की भविष्यवाणी अभी भी महसूस की जा सकती है। यह संभव है, भले ही डब्ल्यूटीओ के गुड्स ट्रेड बैरोमीटर ने 2021 के अंतिम माहों में व्यापार वृद्धि के धीमे होने का संकेत दिया हो, (क्योंकि सितंबर 2021 में इंडेक्स गिरकर 99.5 पर 100 के बेसलाइन वैल्यू के निकट आ गया था) किंतु यह अभी भी बिलो-ट्रेंड-ग्रोथ पर था।¹

¹विश्व व्यापार संगठन का माल-सामग्री व्यापार बैरोमीटर सूचकांक एक प्रमुख संकेतक है जो पण्य व्यापार की मात्रा के आंकड़ों से दो से तीन महीने पहले विश्व व्यापार वृद्धि (वर्ल्ड ट्रेड ग्रोथ) में बदलाव का संकेत देता है। इसका आधारभूत मान 100 है, 100 से अधिक का मान एबोव-ट्रेड-ग्रोथ (वृद्धि) का संकेत देता है जबकि 100 से नीचे का मान बिलो-ट्रेंड-ग्रोथ (वृद्धि) को दर्शाता है।

चित्र 2: 2021 की तीसरी तिमाही (Q3) में विश्व व्यापार की मात्रा और मूल्य में कमी




स्रोत: संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (UNCTAD) और विश्व व्यापार संगठन (WTO)

नोट: विकास दर की गणना 2019 Q1=100 के सूचकांक के आधार पर की गयी है

3.4 2021 के दौरान मात्रा और मूल्य के संदर्भ में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का व्यापार निष्पादन मुख्य रूप से ऊपर उल्लिखित विश्व व्यापार के सामान्य प्रक्षेप-वक्र को दर्शाता है। निर्यात के मामले में रूस और आयात के लिए इंडोनेशिया को छोड़कर, इन प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं ने Q1 और Q2 में वृद्धि के बाद Q3 में कमी देखी (चित्र तीन)।

चित्र 3: प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का पण्य व्यापार निष्पादन



स्रोत: विश्व व्यापार संगठन

नोट: विकास दर की गणना 2019 Q1= 100 के सूचकांक के आधार पर की है।

3.5 भिन्न प्रकार की माल-सामग्रियों के कारण व्यापार (मूल्य के संदर्भ में) पर महत्वपूर्ण रूप से भिन्न प्रभाव दिखता है। 2021 में निर्माण वस्तुओं, कृषि उत्पादों और ईंधन व खनन उत्पादों के व्यापार में पहली तिमाही (Q1) की तुलना में दूसरी तिमाही (Q2) के दौरान सकारात्मक और उच्च वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर देखी गई, इसके बाद तीसरी तिमाही (Q3) में वृद्धि दर में कुछ कमी दिखी। प्राकृतिक गैस की कीमतों में चार गुना वृद्धि से ईंधन और खनन उत्पादों के व्यापार-मूल्य को बढ़ावा मिला। विनिर्मित वस्तुओं में, कुछ क्षेत्रों ने वर्ष-दर-वर्ष मजबूत वृद्धि दिखाई, जिसमें लोहा और इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक घटक और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं, जबकि अन्य वस्तुओं

जैसे मोटर वाहन उत्पाद और दूरसंचार के उपकरणों ने अर्धचालकों (semiconductors) की हालिया कमी को दर्शाते हुए ठहराव या गिरावट को दिखाया।

3.6 जहाँ तक वैश्विक वित्तीय स्थितियों का संबंध है, 2021 में, अर्थव्यवस्थाओं के खुलने के साथ आर्थिक गतिविधियों के पुनर्जीवित होने से वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति में तेजी आई। अमेरिका में मुद्रास्फीति नवंबर 2021 में 6.8 प्रतिशत तक पहुंच गई, जो 1982 के बाद सबसे अधिक थी, जो बड़े पैमाने पर ऊर्जा और खाद्य कीमतों से प्रेरित हुई थी। जैसे-जैसे मुद्रास्फीति की चिंताएं बढ़ रही हैं, महामारी के कारण दिए गए प्रोत्साहनों धीरे-धीरे समाप्त हो रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय स्थितियाँ सख्त (मुद्रा आपूर्ति में कमी) हो सकती हैं, पूँजी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, विनिमय दर पर दबाव पड़ सकता है और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में विकास धीमा हो सकता है। इसलिए, दुनिया भर में मुद्रास्फीति में पुनरुत्थान अब ऐसख्त वैश्विक तरलता/चलनिधि स्थिति और श्वैश्विक मुद्रा में विनिमय दर अस्थिरताश दोनों से जोखिम पैदा करता है।

3.7 कुल मिलाकर, वैश्विक व्यापार के लिए जोखिम-संतुलन नीचे की ओर झुका हुआ है। सबसे बड़ा नकारात्मक जोखिम महामारी से ही उत्पन्न होता है, विशेष रूप से नए वेरिएंट जैसे ओमाइक्रोन का संक्रमण फैलने के साथ। ऊपर वर्णित, वैश्विक मुद्रास्फीति में वृद्धि के अलावा, लंबे समय तक बंदरगाह में देरी; उच्च माल ढुलाई दर; शिपिंग कंटेनरों की कमी; कंप्यूटर पार्ट के लिए आवश्यक सेमीकंडक्टर जैसी मूल सामग्री की कमी, जैसे अन्य कारणों के साथ, मांग के बढ़ने और आपूर्ति पक्ष के व्यवधानों के बढ़ने से वैश्विक व्यापार के लिए बड़े जोखिम पैदा हो गए हैं।

3.8 इस पृष्ठभूमि में, भारत के वैदेशिक क्षेत्र ने वर्ष के दौरान अत्यधिक लचीलापन दिखाया है, जो अर्थव्यवस्था में विकास के पुनरुद्धार के लिए शुभ संकेत है।

भारत के पण्य व्यापार में विकास


पण्य निर्यात

3.9 वैश्विक प्रवृत्ति के बाद, भारत का पण्य निर्यात महामारी से प्रेरित पतन से मजबूती से उबर गया और चालू वित्त वर्ष में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वर्ष 2019-20 (अप्रैल-दिसंबर) की अवधि के 26.5 प्रतिशत की तुलना में 2021-22(अप्रैल-दिसंबर) के दौरान, व्यापारिक निर्यात 49.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 301.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया जो कि पूर्व-महामारी के स्तर से भी अधिक है।

3.10 2021-22 के लिए निर्धारित 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर के महत्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्य में से, भारत पहले ही 301.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के माल सामग्री (व्यापारिक वस्तुओं) का निर्यात करके 75 प्रतिशत से अधिक का लक्ष्य प्राप्त कर चुका है, जो वास्तव में 2021-22 की अप्रैल-दिसंबर अवधि के लिए निर्धारित 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात लक्ष्य से अधिक है। इससे पता चलता है कि जहाँ तक निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने का प्रश्न है, भारत सही दिशा में बढ़ रहा है। प्रमुख बाजारों के शीघ्र पुनर्लाभ; उपभोक्ता खर्च में वृद्धि; प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा राजकोषीय प्रोत्साहन की घोषणा के कारण रूके हुए बचत और प्रयोज्य आय; वैश्विक कमोडिटी मूल्य वृद्धि और सरकार की आक्रामक निर्यात सहायता ने 2021-22 में निर्यात को बढ़ावा दिया है।

3.11 वित्त वर्ष 21 की पहली तिमाही (Q1) में नीचे आने के बाद, व्यापारिक निर्यात में वर्ष-दर-वर्ष क्रमिक विकास की मजबूती के साथ एक प्रभावशाली उछाल हुआ, 2021-22 की दूसरी (Q2) और तीसरी तिमाही (Q3) में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का स्तर पार हो गया (चित्र 4क)। वैश्विक व्यापार वृद्धि में कमी, उच्च शिपिंग दर और कंटेनरों की कमी की के बावजूद ऐसा होना उल्लेखनीय था।

चित्र 4: भारत का पण्य-व्यापारिक निर्यात



स्रोत: वाणिज्य विभाग

नोट: (P): अनंतिम

3.12 निर्यात में वृद्धि पीओएल (पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक) के साथ-साथ गैर-पीओएल (इंजीनियरिंग माल सामग्री, रल्व व आभूषण, और रसायन) निर्यात में उच्च वृद्धि दोनों के योगदान से हुई है, जो विस्तार की ठोस आधार वाली प्रकृति को दर्शाता है (चित्र 4 ख)। यह इस तथ्य में परिलक्षित होता है कि 85 प्रतिशत से अधिक प्रमुख निर्यात वस्तु समूहों ने अप्रैल-दिसंबर, 2021 के दौरान अप्रैल-दिसंबर, 2020 की तुलना में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की। इंजीनियरिंग माल सामग्री, रल्व और आभूषण, और रसायनों की मजबूत मांग से प्रेरित, गैर-पीओएल निर्यात 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 40.1 प्रतिशत अधिक तथा 2019-20 (अप्रैल-दिसंबर) की तुलना में 24.9 प्रतिशत अधिक की वृद्धि दर्ज करते हुए 257.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर रहा।

3.13 वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण, पेट्रोलियम उत्पाद अप्रैल-नवंबर 2021 में सबसे अधिक निर्यात की जाने वाली वस्तु बने रहे, जिनका निर्यात दोगुने से अधिक हो गया है और उनका एक साल पहले इसी अवधि में शेयर 8.8 प्रतिशत से बढ़कर 14.9 प्रतिशत हो गया (तालिका 1)।

सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों जैसे कीमती धातुओं के आयात शुल्क में कमी, प्रमुख निर्यात बाजारों में मांग में पुनरुद्धार के साथ-साथ व्यापार करने में सहजता को बढ़ाने के लिए प्रक्रियात्मक मुद्दों के सरलीकरण के कारण, पिछले साल की तुलना में मोती, कीमती, अर्ध-कीमती पत्थरों और सोने तथा अन्य कीमती धातु के आभूषण गों के निर्यात ने अप्रैल-नवंबर, 2021 में 88 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई है। अप्रैल-नवंबर, 2021 के दौरान शीर्ष दस निर्यात की गई वस्तुओं की सूची में ‘एल्युमीनियम और उसके उत्पादों’ का निर्यात एक नई जोड़ी गई वस्तु है।

तालिका 1: शीर्ष 10 निर्यात वस्तुएं

वर्ग क्रम	वस्तु	(बिलियन अमेरिकी डॉलर)				शेयर (प्रतिशत में)			
		2019-20	2020-21	2020-21 (अप्रैल-नवंबर)	2021-22 (P)	2019-20	2020-21	2020-21 (अप्रैल-नवंबर)	2021-22 (P)
1	पेट्रोलियम उत्पाद	41.3	25.8	15.3	39.5	13.2	8.8	8.8	14.9
2	मोती, .अर्ध कीमती पत्थर	20.7	18.1	9.8	18.1	6.6	6.2	5.6	6.8
3	लोहा और इस्पात	9.3	12.1	7.7	15.9	3.0	4.2	4.4	6.0

4	ड्रग फॉर्म्युलेशन, बायोलॉजिकल	15.9	19.0	12.4	12.4	5.1	6.5	7.1	4.7
5	सोने और अन्य कीमती धातु के आभूषण	13.7	6.6	3.8	7.6	4.4	2.3	2.2	2.8
6	आर्गेनिक रसायन	8.3	7.6	4.8	7.4	2.7	2.6	2.8	2.8
7	इलेक्ट्रिक मशीनरी और उपकरण	9.0	8.1	5.1	6.4	2.9	2.8	2.9	2.4
8	एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के उत्पाद	5.1	5.8	3.6	6.1	1.6	2.0	2.1	2.3
9	लौह और इस्पात के उत्पाद	7.0	6.6	3.9	5.4	2.2	2.2	2.2	2.0
10	वस्तुओं का योग	6.7	6.0	4.0	5.4	2.1	2.0	2.3	2.0
उक्त 10 वस्तुओं का योग		137.1	115.8	70.3	124.1	43.8	39.7	40.4	46.7
भारत का कुल निर्यात		313.4	291.8	174.2	265.7	100	100	100	100


स्रोत: वाणिज्य विभाग

नोट: (P): अनंतिम

3.14 कोविड-19 महामारी के दौरान प्रमुख भोज्य पदार्थ की बढ़ी हुई मांग का लाभ उठाते हुए, एक प्रभावी कृषि निर्यात नीति द्वारा समर्थित, भारत के कृषि निर्यात 2021-22 ने अच्छा निष्पादन करना जारी रखता है। अप्रैल-नवंबर, 2021 के दौरान कृषि और संबद्ध उत्पादों (समुद्री और रोपण-कृषि उत्पादों सहित) का निर्यात पूर्व-महामारी के स्तर को पार कर अप्रैल-नवंबर, 2020 की इसी अवधि की तुलना में 23.2 प्रतिशत और अप्रैल-नवंबर, 2019 की तुलना में 35.0 प्रतिशत अधिक बढ़कर 31.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया (चित्र 5)। 2021-22 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान शीर्ष 10 कृषि निर्यात वस्तुओं की सूची अनुबंध-I में दर्शाई गई है।

3.15 निर्यात प्रोत्साहन एजेंसियों के सक्रिय समर्थन जिसमें निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी), कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) और निर्यात के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करने जैसे निर्यात सुविधा उपाय सम्मिलित हैं, ने महामारी के दौरान कृषि निर्यात के विकास में सहायता की है। परिवहन और विपणन सहायता (टीएमए) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद योजना के लिए, 01.04.2021 को या उसके बाद होने वाले निर्यात में 'सरकारी-सहायता की दरों (Rates of assistance)' में वृद्धि की गई। नागरिक उड़ायन मंत्रालय ने किसानों को उनके मूल्य प्राप्ति में सुधार लाने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्गों पर कृषि उत्पादों के परिवहन में सहायता करने के लिए अगस्त 2020 में 'कृषि उड़ान' योजना शुरू की है।

चित्र 5: कृषि निर्यात (बिलियन अमेरिकी डॉलर)




स्रोत: वाणिज्य विभाग

नोट: (P): अनंतिम

3.16 यह देखा गया है कि समुद्री उत्पादों, भैंस के मांस, चाय, कॉफी और डेयरी उत्पादों जैसे क्षेत्रों ने भी, जिन्होंने 2020-21 के दौरान अच्छा निष्पादन नहीं किया था, चालू वर्ष के दौरान पर्याप्त वृद्धि दर्ज की है। यह आने वाले वर्षों में कृषि निर्यात के और अधिक विविधीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए शुभ संकेत है।

3.17 अमेरिका (यूएसए) अप्रैल-नवंबर 2021 में शीर्ष निर्यात गंतव्य बना रहा, इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और चीन (चित्र 6) का स्थान आता है। बेल्जियम ने मलेशिया का स्थान ले लिया है और अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान शीर्ष दस प्रमुख निर्यात स्थलों में प्रवेश किया है। एक अरब डॉलर से अधिक मूल्य के मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर, और लोहा व इस्पात इस देश को भेज दिया गया।

चित्र 6: 2021-22 (अप्रैल-नवंबर) में शीर्ष दस निर्यात गंतव्य के देश [भाग प्रतिशत में]



स्रोत: वाणिज्य विभाग

3.18 भारत के पिछले 25 वर्षों में, निर्यात स्थलों में विविधता देखी गयी है, फिर भी भारत के निर्यात का 40 प्रतिशत से अधिक भाग अभी भी केवल सात देशों के पास है। पिछले कई वर्षों में भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत कई भागीदारों के साथ द्विपक्षीय और क्षेत्रीय स्तरों पर 'मुक्त व्यापार समझौते' पर बातचीत

कर रहा है। इस दिशा में सहायता देने से संस्थागत व्यवस्था प्रदान करने में मदद मिलेगी, जिससे उत्पादों और गंतव्यों दोनों में विविधता लायी जा सकेगी।

व्यापार करार में प्रगति

3.19 पिछले कुछ वर्षों के दौरान, भारत ने अपनी व्यापार करार वार्ता शुरू की है और कई देशों के साथ मौजूदा करारों की समीक्षा की है। उक्त में निम्नलिखित बातचीत शामिल है (i) भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए); (ii) यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ एफटीए; (iii) कनाडा के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए); और (iv) यूएई के साथ सीईपीए। इसके अतिरिक्त भारत सिंगापुर के साथ सीईसीए और आसियान देशों के साथ, (आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एंग्रीमेंट (AITIGA)) जैसे अपने मौजूदा व्यापार करारों की समीक्षा कर रहा है। यूएई के साथ करार की बातचीत पूरी हो गई है और ऑस्ट्रेलिया के साथ पूरा होने के अंतिम चरणों में है।

3.20 इसके अलावा, मई 2021 में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा निर्धारित, यूके के साथ एफटीए वार्ता, भारत ने 13 जनवरी, 2022 को शुरू की, जिससे 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के लक्ष्य को सुगम बनाने की उम्मीद है। भारत-अमेरिका व्यापार नीति फोरम (मंत्री स्तरीय) के अंतर्गत, 6 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा हुई, जिसमें सामाजिक सुरक्षा करार के संबंध में, नर्सिंग सेवाओं और लेखा-शास्त्र सेवाओं में पारस्परिक मान्यता करार (MRA), और भारतीय पेशेवरों से संबंधित गतिशीलता के मुद्दे को सम्मिलित किया गया।

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख योजनाएं और पहल

3.21 भारत के निर्यात के प्रभावशाली निष्पादन का श्रेय निर्यात को बढ़ावा देने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं और पहलों को दिया जा सकता है। इनमें से कुछ योजनाएं इस प्रकार हैं :

i) **निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी):** भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, डब्ल्यूटीओ के अनुसार आरओडीटीईपी योजना 01.01.2021 से लागू की गई है। विश्व स्तर पर स्वीकृत सिद्धांत के आधार पर कि करों और शुल्कों का निर्यात नहीं किया जाना चाहिए, जिसे अमेरिका द्वारा विश्व व्यापार संगठन में चुनौती दी गई थी, यह योजना भारत से पण्य निर्यात योजना (एमईआईएस) का एक सुधरा हुआ रूप है। यह नई योजना निर्यात किए गए उत्पादों के निर्माण और वितरण की प्रक्रिया में उपगत केंद्रीय, राज्य और स्थानीय करों और शुल्कों, जिनकी वर्तमान में धन-वापसी नहीं हुई है, की प्रतिपूर्ति करती है और इस तरह विदेशों में घरेलू उद्योग को एक समान अवसर प्रदान करती है। सम्मिलित किए गए करों के प्रमुख घटक हैं बिजली शुल्क, परिवहन/वितरण में उपयोग किए जाने वाले ईंधन पर मूल्यवर्धित कर, मंडी कर, स्टांप शुल्क, आदि।

ii) **जिले को निर्यात हब के रूप में विकसित करना:** इस पहल के अंतर्गत, जिले में उत्पादित/निर्मित वस्तुओं/सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने में जिला स्तर पर सक्रिय हितधारक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रत्येक जिले में जिला निर्यात संवर्धन समितियों (डीईपीसी) का गठन किया गया है। देश भर के सभी 739 जिलों में संभावित निर्यात क्षमता वाले उत्पादों (कृषि, जीआई टैग किए गए उत्पाद) से संबंधित क्षेत्र और 'खिलौना क्लस्टर' से संबंधित क्षेत्रों की पहचान की गई है। यह योजना निर्यात वस्तुओं की निवेश-सूची में विविधता लाने में सहायता करेगी।

iii) **प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेटिव (PLI) योजना:** 2021-22 से शुरू होने वाले 14 प्रमुख क्षेत्रों में प्रोडक्शन

लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के लिए केंद्रीय बजट 2021-22 में 1.97 लाख करोड़ (US\$26 बिलियन) के परिव्यय की घोषणा की गई थी। यह योजना घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों के लिए वृद्धिशील बिक्री पर कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिससे 5 वर्षों में 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का न्यूनतम उत्पादन होने की संभावना है। ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपनेंट, फार्मास्युटिकल ड्रग्स, टेलीकॉम और नेटवर्किंग उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक/प्रौद्योगिकी उत्पाद, आदि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो पीएलआई योजना के अंतर्गत आते हैं (विवरण के लिए उद्योग अध्याय देखें)।

- iv) **इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन (सीओओ):** कोविड-19 संकट को देखते हुए, भौतिक संपर्क से बचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट जारी करने की अनुमति देने के लिए एफटीए/अधिमान्य व्यापार समझौता (PTA) की ऑन-बोर्डिंग जल्दी की गई। ई-प्लेटफॉर्म से आज 2 तक लगभग 4.6 लाख सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन(सीओओ) जारी किए जा चुके हैं। गैर- अधिमान्य सीओओ जारी करना भी 15.04.2021 से शुरू किया जा चुका है। 2एक गैर-अधिमान्य सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन (सीओओ) माल की उत्पत्ति को तो प्रमाणित करता है किंतु निर्यातक को कोई अधिमान्य टैरिफ अधिकार नहीं देता है।
- v) **एकिजम बैंक में पूँजी का प्रवाह:** भारत सरकार द्वारा अपनी शेयर पूँजी की सदस्यता के माध्यम से चालू वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एकिजम बैंक) को 750 करोड़ की पूँजी प्रदान की गयी।
- vi) **एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड निर्यातक उधारकर्ताओं को निर्यात ऋण देने में जोखिम के लिए बैंकों को जोखिम बीमा सुरक्षा प्रदान करता है। सरकार ने ईसीजीसी लिमिटेड को पांच साल की अवधि में अर्थात् 2021-2022 से 2025-2026 तक के लिए 4,400 करोड़ रुपये की पूँजी प्रदान करने की मंजूरी दी है। इससे ईसीजीसी की हामीदारी करने की क्षमता 88,000 करोड़ तक बढ़ जाएगी, जो पांच साल की अवधि में 5.28 लाख करोड़ के अतिरिक्त निर्यात का समर्थन करेगी।**
- vii) **एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स (ईपीसीजी)** योजना विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत एक चालू योजना है। ईपीसीजी योजना के अंतर्गत स्वदेशी विनिर्माताओं से पूँजीगत वस्तुओं की खरीद बढ़ाने के लिए सरकार ने विशिष्ट निर्यात दायित्वों को 90 प्रतिशत से घटाकर सामान्य निर्यात दायित्व के 75 प्रतिशत तक कर दिया है।
- viii) **निर्यात प्रोत्साहन योजनाएँ** जैसे निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसंरचना (TIES), बाजार पहुँच पहल (MAI), विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) योजना, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) और एडवांस ऑथरेजेशन योजना ने व्यापार सा और विपणन सम्बन्धी बुनियादी ढांचे को सहायता प्रदान करना जारी रखा है।

बॉक्स 1: निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक दक्ष संभार-तंत्र पारिस्थितिकी को सक्षम करना


निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक कुशल, प्रतिस्पर्धी और समुत्थानशील संभार-तंत्र (लॉजिस्टिक्स) पारिस्थितिकी महत्वपूर्ण है। अनेक चुनौतियों के बावजूद, भारत ने व्यापार संबंधी लॉजिस्टिक्स में पर्याप्त प्रगति की है, जो प्रमुख वैश्विक सूचकांकों में परिलक्षित होती है।

‘डिजिटल और संधारणीय व्यापार सुविधा’ पर संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया प्रशांत (UNESCAP) के नवीनतम वैश्विक सर्वेक्षण में भारत के 2021 में 90.3 प्रतिशत प्राप्तांक हैं। पांच प्रमुख संकेतकों के स्कोर में सुधार के कारण, 2019 में इसके 78.5 प्रतिशत के प्राप्तांक की तुलना में, यह उल्लेखनीय उछाल हुआ है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि दक्षिण और दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र (63.1 प्रतिशत) और एशिया प्रशांत क्षेत्र (65.9 प्रतिशत) की

²A non-preferential COO certifies the origin of the goods but does not grant any preferential tariff rights to the exporter.

तुलना में भारत सबसे अच्छा निष्पादन करने वाला देश है। पांच संकेतकों में से प्रत्येक में निरंतर सुधार द्वारा समर्थित भारत ने 2015 के बाद से अपने समग्र व्यापार सुविधा प्राप्तांक में लगातार और महत्वपूर्ण वृद्धि देखी है (चित्र बी 1.1)। 2021 में पारदर्शिता सूचकांक में 100 प्रतिशत अंक मिले, जबकि कागज रहित व्यापार और औपचारिकताओं में 96 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए।

चित्र ख1.1: डिजिटल और संधारणीय व्यापार सुविधा पर वैश्वक सर्वेक्षण में भारत का प्रदर्शन



स्रोत: यूनाइटेड नेशंस इकनोमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पसिफिक (यूएनएस्कोप)

प्रधानमंत्री गति शक्ति 'राष्ट्रीय महायोजना (NMP)

अक्टूबर 2021 में स्वीकृत, प्रधानमंत्री गति शक्ति 'राष्ट्रीय महायोजना का उद्देश्य विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करना और संभार-तंत्र (लॉजिस्टिक्स) दक्षता में सुधार के लिए लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही के लिए बुनियादी ढांचे को समग्र रूप से एकीकृत करना है। गति शक्ति का कार्य आधारभूत मार्ग परियोजनाओं जैसे भारतमाला, सागरमाला, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग, उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) के लिए 16 मंत्रालयों को एक साथ लाना है जिससे 'एकीकृत आयोजना बनायी जा सके और समन्वित कार्यान्वयन' किया जा सके। इसमें व्यापक रूप से प्रौद्योगिकी का

लाभ उठाया जायेगा जिसमें भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन एंड जियोइनफॉर्मैटिक्स (BiSAG-N) द्वारा विकसित इसरो इमेजरी का उपयोग 'स्पेस प्लानिंग उपकरण' के साथ किया जायेगा। इसमें टेक्सटाइल क्लस्टर, फार्मास्युटिकल क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक पार्क जैसे आर्थिक सहायता प्राप्त क्षेत्रों को सम्मिलित किया जायेगा और इनकी संभार-तंत्र (लॉजिस्टिक्स) लागत में कटौती तथा स्थानीय उद्योग व उपभोक्ताओं के लिए उचित मार्ग तैयार करके भारतीय व्यवसायों को विश्व स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कार्य किया जाएगा। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, विदेशी निवेश आकर्षित होगा और रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न होंगे।

संभार-तंत्र (लॉजिस्टिक्स) पारिस्थितिकी में सुधार के लिए अन्य पहल


सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बुनियादी ढांचे में वृद्धि और प्रक्रिया सुधारों के माध्यम से संभार-तंत्र (लॉजिस्टिक्स) दक्षता में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं।

इनमें से कुछ इस प्रकार हैं - फास्ट टैग FASTag, तुरंत सीमा शुल्क (कस्टम्स), अनिवार्य रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैगिंग (RFID) सभी आयात-नियात कंटेनरों में ई-संचित, इंडियन कस्टम्स ट्रेड असिस्टेंस इन्कारारी फॉर ट्रेड असिस्टेंस एंड नॉलेज (ICETRAK), ICEDASH (इंडियन कस्टम्स EDI डैशबोर्ड), सिक्योर्ड लोजिस्टिक्स डॉक्यूमेंट एक्सचेंज (SLDE), इम्पोर्ट क्लीयरेंस सिस्टम, जीएचजी कैलकुलेटर आदि। समुद्री व्यापार को आसान बनाने के लिए बंदरगाह-विशिष्ट महा-योजना (मास्टर प्लान) के विकास पर प्रयास किए जा रहे हैं और उसी के कार्यान्वयन के लिए एक समन्वय तंत्र भी तैयार किया जा रहा है जिसमें चुनिंदा भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों (एलसीएस) का एकीकृत जांच चौकियों (आईसीपी) में उन्नयन, मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्रों को बढ़ावा देना आदि सम्मिलित होगा।

पण्य आयात

3.22 जैसे ही महामारी कम हुई, भारत ने घरेलू मांग में सुधार देखा जिसके परिणामस्वरूप मजबूत आयात वृद्धि हुई। पूर्व-महामारी के स्तर को पार करते हुए, अप्रैल-दिसंबर, 2021 में व्यापारिक आयात पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 68.9 प्रतिशत और अप्रैल-दिसंबर, 2019 की तुलना में 21.9 प्रतिशत की दर से बढ़कर 443.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। जैसे माल निर्यात के मामले में, आयात ने भी वित्त वर्ष 20-21(Q1) के बाद से दीर्घ-कालिक वृद्धि दिखाई और वित्त वर्ष 20-21(Q3) में पूर्व-कोविड स्तरों को पार करके लगभग US\$166 बिलियन तक पहुँच गया (चित्र-7क)।

चित्र 7: भारत का पण्य आयात



स्रोत: वाणिज्य विभाग नोट: पी: अनंतिम

3.23 अप्रैल-दिसंबर, 2021 में व्यापारिक आयातों में दर्ज किए गए विस्तार के लिए तीनों घटकों अर्थात् सोने और चांदी के आयात (कुल आयात में 9.1 प्रतिशत की हिस्सेदारी के लिए लेखांकन), पीओएल आयात (26.6 प्रतिशत हिस्सा) और गैर-पीओएल, गैर-सोने और चांदी के आयात (64.3 प्रतिशत शेरर), के धनात्मक वृद्धि जिम्मेवार हैं जिसमें गैर-पीओएल, गैर-सोने और चांदी के आयात बाद में वृद्धि से घरेलू गतिविधि में अधिकतम वृद्धि का संकेत मिलता है (चित्र 7बी)। यह देखा गया है कि 93 प्रतिशत से अधिक प्रमुख आयात वस्तुओं ने पिछले वर्ष की तुलना में अप्रैल दिसंबर, 2021 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है, जो अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार का संकेत है।

3.24 कच्चे तेल की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण, अप्रैल-दिसंबर, 2021 में पीओएल आयात एक साल पहले की इसी अवधि की तुलना में 119.2 प्रतिशत और अप्रैल-दिसंबर, 2019 की तुलना में 22.3 प्रतिशत बढ़कर 118.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो एक साल पहले की इसी अवधि की तुलना में और अप्रैल-दिसंबर, 2019 की तुलना में 22.3 प्रतिशत अधिक था। कच्चे तेल की कीमत (इंडियन बास्केट) ने प्री-कोविड स्तर को पार कर लिया और अक्टूबर 2021 में 82.1 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के सर्वकालिक उच्च मूल्य को छू लिया। दूसरी ओर, पीओएल आयात की मात्रा पिछले वर्ष की तुलना में अधिक बढ़ी, लेकिन पूर्व-महामारी के स्तर से नीचे रही। स्तरा सोने और चांदी का आयात एक साल पहले इसी अवधि में यह 17.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में दोगुना से अधिक 40.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, और अप्रैल-दिसंबर, 2019 में दर्ज 25.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के महामारी-पूर्व स्तर को पार कर गया।

3.25 गैर-पीओएल, गैर-सोने और चांदी का आयात अप्रैल-दिसंबर, 2021 में 285.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 49.3 प्रतिशत और अप्रैल-दिसंबर, 2019 की तुलना में 17.9 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान; मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर; और कोयला, कोक और ब्रिकेट्स आदि ने उक्त अवधि में गैर-पीओएल, गैर-सोने और चांदी के आयात वृद्धि में

अधिकतम योगदान दिया।

3.26 प्रमुख आयात वस्तुओं में, कच्चे पेट्रोलियम का आयात पिछले वर्ष की तुलना में अप्रैल-नवंबर, 2021 में दोगुने से अधिक बढ़कर 73.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया और यह सबसे अधिक आयातित वस्तु बना हुआ है। सोने का आयात एक साल पहले इसी अवधि में 12.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर (5.6 प्रतिशत शेयर) से बढ़कर 33.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर (8.7 प्रतिशत शेयर) हो गया, जो दूसरे स्थान पर लौट आया (तालिका 2)। यह सोने के आयात की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण है जो पिछले वर्ष की तुलना में तीन गुना से अधिक हो गया है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में गिरावट के कारण मजबूत उत्सव और निर्यात मांग के कारण पूर्व महामारी के स्तर को पार कर गया है। अप्रैल-नवंबर, 2019 के विपरीत, डेयरी और आयरन एंड स्टील के लिए औद्योगिक मशीनरी चालू वर्ष में शीर्ष दस आयात वस्तुओं की सूची में शामिल नहीं है।

तालिका 2: शीर्ष 10 आयात वस्तुएं


रैंक	वस्तु	(US\$ बिलियन)				हिस्पेदारी (प्रतिशत में)			
		2019-20	2020-21	2020-21 (P)	2021-22 (P)	2019-20	2020-21	2020-21 (P)	2021-22 (P)
1	पेट्रोलियम: कच्चा	102.7	59.5	31.3	73.3	21.6	15.1	14.2	19.2
2	सोना	28.2	34.6	12.3	33.2	5.9	8.8	5.6	8.7
3	पेट्रोलियम उत्पाद	27.8	23.2	13.1	24.1	5.9	5.9	5.9	6.3
4	मोती, कीमती, कीमती पथर	22.5	18.9	9.3	19.2	4.7	4.8	4.2	5.0
5	कोयला, कोक और ब्रिकेट, आदि।	22.5	16.3	9.7	18.9	4.7	4.1	4.4	4.9
6	इलेक्ट्रोक्रानिक्स घटक	16.3	15.3	8.7	14.5	3.4	3.9	4.0	3.8
7	बनस्पति तेल	9.7	11.1	6.8	12.2	2.0	2.8	3.1	3.2
8	जैविक रसायन	12.2	11.1	6.3	11.2	2.6	2.8	2.9	2.9
9	कंप्यूटर हार्डवेयर, सहायक उपकरण	9.0	10.4	6.6	9.7	1.9	2.6	3.0	2.6
10	प्लास्टिक कच्चे माल	10.4	9.7	5.2	9.5	2.2	2.5	2.4	2.5
कुल 10 वस्तुओं का योग		261.3	210.1	109.3	225.9	55.0	53.3	49.7	59.2
भारत का कुल आयात		474.7	394.4	219.8	381.4	100	100	100	100

स्रोत: वाणिज्य विभाग नोट: पी: अनंतिम

3.27 आयात मूल के शीर्ष दस देशों में, अप्रैल-नवंबर, 2021 में चीन, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़े आयात स्रोत थे। हालांकि एक साल पहले की इसी अवधि में चीन की हिस्पेदारी 17.7

प्रतिशत से घटकर 15.5 प्रतिशत हो गई है। यूएई दूसरे स्थान पर है, उसके बाद यूएसए है। स्विट्जरलैंड, जिसे पिछले साल भारत के आयात के शीर्ष दस स्रोतों से हटा दिया गया था, अप्रैल-नवंबर, 2021 में 4.7 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ छठे स्थान पर वापस आ गया। इंडोनेशिया - कच्चे पाम तेल का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कुल आयात में 2.9 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ, शीर्ष दस में से एक बना हुआ है। (चित्र 8)।

चित्र 8: 2021-22 (अप्रैल-नवंबर) में शीर्ष दस आयात स्रोत [शेयर प्रतिशत में]




स्रोत: वाणिज्य विभाग

पण्य व्यापार संतुलन

3.28 जैसा कि ऊपर बताया गया है, घरेलू गतिविधि के साथ-साथ कई व्यापारिक भागीदारों में पुनरुद्धार के साथ वैश्विक मांग की वसूली के कारण, व्यापारिक निर्यात और साथ ही आयात दोनों में जोरदार उछाल आया और पूर्व-महामारी के स्तर को पार कर गया, जिससे व्यापारिक व्यापार घाटे में वृद्धि हुई। अप्रैल-दिसंबर, 2021 में यह 142.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह 61.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर और अप्रैल-दिसंबर 2019 में 125.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का घाटा था। व्यापारिक व्यापार घाटा 2021 में नीचे आने के बाद और बढ़ गया; वित्तीय वर्ष 21 (चित्र 9)।

चित्र 9: निर्यात और आयात में उच्च वृद्धि के कारण पण्य व्यापार संतुलन में वृद्धि



स्रोत: वाणिज्य विभाग

नोट: (P): अनंतिम।

3.29 तालिका 3 2020-21 (अप्रैल-नवंबर) की तुलना में 2021-22 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान प्रमुख देशों के साथ भारत के व्यापारिक व्यापार संतुलन को दर्शाती है। भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सबसे अनुकूल

व्यापार संतुलन था, जिसके बाद बांग्लादेश और नेपाल थे।

तालिका 3: प्रमुख देशों के साथ भारत का पण्य व्यापार संतुलन

क्र. सं.	देश	निर्यात		आयात		ट्रेड का संतुलन		(US\$ बिलियन)
		अप्रै-नव 20	अप्रै-नव 21 (P)	अप्रै-नव 20	अप्रै-नव 21 (P)	अप्रै-नव 20	अप्रै-नव 21 (P)	
1	अमेरिका	31.3	49.0	16.3	27.4	15.0	21.6	
2	बांग्लादेश	5.1	9.2	0.6	1.3	4.4	7.9	
3	नेपाल	3.5	6.0	0.4	1.0	3.1	5.0	
4	तुर्की	2.3	5.1	0.9	1.3	1.4	3.8	
5	नीदरलैंड	3.8	6.9	1.9	2.8	1.9	4.1	
6	यू. कू.	4.6	6.8	2.6	4.3	2.0	2.5	
7	इटली	2.6	5.4	2.2	3.2	0.4	2.1	
8	कोरिया	2.9	4.8	7.1	11.1	-4.2	-6.3	
9	कतर	0.8	1.2	4.6	7.7	-3.8	-6.5	
10	सं अरब अमीरात	9.7	17.5	13.1	27.9	-3.4	-10.4	
11	सऊदी अरब	3.6	5.8	9.2	19.2	-5.6	-13.4	
12	इराक	1.0	1.3	7.6	18.5	-6.6	-17.2	
13	स्विटजरलैंड	0.9	0.9	5.8	17.8	-4.9	-16.9	
14	चीन	13.6	15.6	38.8	59.0	-25.2	-43.4	

स्रोत: वाणिज्य विभाग नोट: P: अनंतिम

सेवाओं में व्यापार

सेवा निर्यात

3.30 भारत ने कोविड-19 के बाद की अवधि में विश्व सेवा व्यापार में अपना प्रभुत्व बनाए रखा है। महामारी से प्रेरित वैश्विक प्रतिबंधों और कमज़ोर पर्यटन राजस्व के बावजूद, भारत के सेवा निर्यात ने 2021-22 (अप्रैल दिसंबर) के दौरान एक साल पहले की इसी अवधि की तुलना में 18.4 प्रतिशत की वृद्धि और 2019 की तुलना में 11.0 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 177.7 अरब अमेरिकी डॉलर हो गयी। और पूर्व-महामारी के स्तर को पार कर गया। यह मुख्य रूप से शीर्ष तीन कंप्यूटर, व्यवसाय और परिवहन सेवाओं के कारण है जो कुल सेवाओं के निर्यात का 80 प्रतिशत से अधिक है। Q1: FY 21 में मंदी दर्ज करने के बाद, Q2: FY21 के बाद से सेवा निर्यात लचीला बना रहा और Q3: FY 22 (चित्र 10) में यूएस \$ 60 बिलियन तक पहुंचने के लिए लगातार बढ़ गया।

तालिका 4: सेवा व्यापार निष्पादन


	2019-20	2020-21	2020-21 (अप्रैल-दिसंबर)	2021-22 (अप्रै-दिसं*) (P)
सेवा निर्यात	213.2	206.1	150.1	177.7
सेवा आयात	128.3	117.5	85.0	103.3

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक और वाणिज्य विभाग

नोट: *: दिसंबर 2021 का डेटा एक अनुमान है; P: अनंतिम

अंदिसंबर 2021 का डेटा एक अनुमान है, जिसे आरबीआई की बाद की रिलीज के आधार पर संशोधित किया जाएगा। आरबीआई द्वारा जारी सेवा क्षेत्र के लिए ताजा आंकड़े नवंबर 2021 तक के हैं।

चित्र 10: सेवा निर्यात और आयात में वृद्धि



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक और वाणिज्य विभाग नोट: *: अनुमानों के आधार पर; P: अनंतिम

3.31 वित्त वर्ष 22 की पहली छमाही में कंप्यूटर सेवाओं का निर्यात सबसे बढ़ी सेवा निर्यात बना हुआ है, जो कुल सेवा निर्यात का लगभग 49 प्रतिशत है। उन्होंने नई महामारी चुनौतियों के कारण डिजिटल समर्थन, क्लाउड सेवाओं और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की बढ़ती मांग के कारण Q2: FY 21 के बाद से सकारात्मक क्रमिक विकास का प्रदर्शन किया। व्यापार सेवाओं के निर्यात - दूसरा प्रमुख खंड - ने भी पेशेवर, प्रबंधन और परामर्श सेवाओं में सुधार के आधार पर सुधार दिखाया। परिवहन सेवाओं का निर्यात एच1: वित्त वर्ष 22 में 40.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ सीमा पार व्यापार गतिविधि में वृद्धि और परिवहन लागत को प्रभावित करने वाले शिपिंग कंटेनरों की कमी के कारण 14.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। तिमाही घटक-वार सेवा निर्यात डेटा अनुबंध II में प्रस्तुत किया गया है।

3.32 सेवाओं के निर्यात में देखी गई मजबूत वृद्धि के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रमुख सुधारों को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नवंबर 2020 में अन्य सेवा प्रदाताओं (ओएसपी) को उदार बनाना और आगे जून 2021 में दूरसंचार क्षेत्र के लिए सुधार पैकेज की घोषणा करना शामिल है ताकि तरलता को बढ़ावा दिया जा सके, प्रोत्साहित किया जा सके। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर निवेश और विनियामक बोझ को कम करना (सेवाओं के अध्याय में बॉक्स देखें)।

सेवा आयात

3.33 सेवा आयात 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) में महामारी का स्तर पार करते हुए एक साल पहले की इसी अवधि से 21.5 प्रतिशत बढ़कर 103.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया और 2019-20 (अप्रैल-दिसंबर) की तुलना में 6.2 प्रतिशत अधिक हो गया (तालिका 4)। सेवाओं के आयात में वृद्धि मुख्य रूप से व्यापार, परिवहन, यात्रा और कंप्यूटर सेवाओं के भुगतान के कारण हुई है, जो कुल मिलाकर सेवाओं के आयात का 75 प्रतिशत से अधिक है। सेवाओं के निर्यात के जैसे ही, भारत के सेवाओं के आयात ने भी Q1: FY21 में महामारी प्रेरित लॉकडाउन के कारण मंदी की सूचना दी। हालांकि, बाद में उनमें सुधार हुआ और वित्त वर्ष 22 की तीसरी तिमाही (चित्र 10) में 37 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।


*दिसंबर 2021 का डेटा एक अनुमान है, जिसे आरबीआई की बाद की रिलीज के आधार पर संशोधित किया जाएगा। आरबीआई द्वारा जारी सेवा क्षेत्र के लिए ताजा आंकड़े नवंबर 2021 तक के हैं।

3.34 सेवाओं के आयात में सबसे बड़ी हिस्सेदारी के साथ व्यापार सेवाओं में एच1: वित्त वर्ष 22 में साल-दर-साल आधार पर 0.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। शिपिंग जहाजों में अंतरराष्ट्रीय कमी के साथ वैश्विक गतिविधि में फिर से शुरू होने के बीच, परिवहन लागत में वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप परिवहन भुगतान में बड़ी वृद्धि हुई जो एच1: वित्त वर्ष 22 में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 64.9 प्रतिशत बढ़कर 14.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ी। बाहरी यात्रा भी एच1: वित्त वर्ष 22 में फिर से शुरू हुई, जिसमें यात्रा भुगतान में एच1: वित्त वर्ष 21 की तुलना में 23.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। तिमाही घटक-वार सेवाएं आयात डेटा अनुबंध III में प्रस्तुत किया गया है।

निजी स्थानान्तरण

3.35 एच1: वित्त वर्ष 22 में, शुद्ध निजी स्थानान्तरण – मुख्य रूप से विदेशों में कार्यरत भारतीयों द्वारा प्रेषण का प्रतिनिधित्व करते हुए – एक साल पहले की इसी अवधि की तुलना में 7.2 प्रतिशत बढ़कर 38.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया और एच1: वित्त वर्ष 20 की तुलना में मामूली 0.1 प्रतिशत अधिक हो गया। महामारी का स्तर प्रवासन और विकास संक्षिप्त 35, विश्व बैंक (नवंबर 2021) के अनुसार, भारत 2021 में (वर्तमान अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में) दुनिया में सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश बना हुआ है और 2008 से ऐसा है। Q1 में नीचे आने के बाद: वित्त वर्ष 21, शुद्ध निजी स्थानान्तरण ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की और Q2: वित्त वर्ष 22 (चित्र 11) में 19.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दर्ज की।

चित्र 11: धन-प्रेषण



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक और विश्व बैंक

नोट: ': अनुमान

व्यापार की अमूर्त/अदृश्य मद्दें

3.36 उच्च निवल सेवा प्राप्तियों और निजी हस्तांतरणों के कारण, शुद्ध अदृश्य वस्तुएं पिछले वर्ष के 60.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर और एच1: वित्तीय वर्ष 20 में 63.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर (तालिका 5) की तुलना में पूर्व कोविड स्तर को पार कर एच1: वित्त वर्ष 22 में 72.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर थीं। सेवाओं और स्थानान्तरण की प्रवृत्ति के बाद, निवल अदृश्य में भी Q1: FY 21 से अधिक वृद्धि का अनुभव हुआ। हालांकि, प्राथमिक आय खाते से उच्च निवल आउटगो के कारण Q2: FY 22 में क्रमिक गिरावट आई है, जो मुख्य रूप से शुद्ध विदेशी निवेश आय भुगतान को दर्शाती है (चित्र 12)।


तालिका 5: शुद्ध अमूर्त/अदृश्य मदें और उनके घटक

वर्ष / मद (शुद्ध)	(US\$ बिलियन)			
	2019-20	2020-21	2020-21 H1	2021-22 H1 (P)
अदृश्य	132.8	126.1	60.1	72.1
सेवाएं	84.9	88.6	41.8	51.4
स्थानांतरण	75.2	73.5	35.4	37.9
आय	-27.3	-36.0	-17.1	-17.2

स्रोत: आरबीआई

नोट: P: अनंतिम

चित्र 12: शुद्ध अमूर्त/अदृश्य मदें की संरचना



चालू खाता शेष

3.37 एच1: वित्त वर्ष 21 में अधिशेष देखने के बाद, भारत का चालू खाता शेष एच1: वित्त वर्ष 22 में 3.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 0.2 प्रतिशत) के घाटे में फ़िलप हो गया, जो व्यापारिक व्यापार घाटे में तेज वृद्धि के कारण था (तालिका 6)। हालांकि, यह चालू खाता घाटा H1: FY 20 (महामारी पूर्व स्तर) में दर्ज 22.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के घाटे से कम रहा।


3.38 जहां तक तिमाही उतार-चढ़ाव का संबंध है, व्यापार घाटा बढ़ने और निवेश आय के निवल व्यय में वृद्धि के कारण चालू खाता शेष पिछली तिमाही के अधिशेष से वित्त वर्ष 22 की दूसरी तिमाही में घाटे में बदल गया (चित्र 13)।

तालिका 6: चालू खाता शेष

वर्ष / मद (शुद्ध)	2019-20	2020-21	2020-21 H1	2021-22 H1 (P)
चालू खाता शेष (US\$ बिलियन)	-24.7	23.9	34.3	-3.1
चालू खाता शेष (जीडीपी प्रतिशत)	-0.9	0.9	3.0	-0.2

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक नोट: P: अनंतिम

चित्र 13: चालू खाता शेष (सीएबी)



स्रोत: आरबीआई

नोट: P: अनंतिम

पूँजी खाता/वित्तीय खाता

3.39 एच1: वित्त वर्ष 22 में, शुद्ध पूँजी प्रवाह तीन गुना से अधिक 65.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 4.5 प्रतिशत) हो गया, जो एच1: वित्त वर्ष 21 में ऋणों में वृद्धि के पीछे मुख्य रूप से बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी), बैंकिंग पूँजी के कारण था। अन्य पूँजी (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 17.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एसडीआर आवंटन सहित) और विदेशी निवेश का निरंतर अंतर्वाह (तालिका 7)। ये महामारी पूर्व स्तर (भ1: रु 20) की इसी अवधि से भी अधिक थे।

3.40 शुद्ध पूँजी प्रवाह अस्थिर रहा, फिर भी 2021-22 की दोनों तिमाहियों में वर्ष-दर-वर्ष और क्रमिक वृद्धि देखी गई। जबकि पूँजी प्रवाह Q1: FY 22 में मुख्य रूप से वर्ष-दर-वर्ष आधार पर मजबूत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कारण बढ़ा, यह मुख्य रूप से FPI, ECB में वृद्धि और IMF द्वारा विशेष आहरण अधिकार (SDR) के आवंटन के कारण Q2: FY 22 में और बढ़ गया। निवल अन्य पूँजी में उल्लेखनीय वृद्धि में परिलक्षित होता है (चित्र 14)।


तालिका 7: पूँजी खाता शेष

(US\$ बिलियन जब तक अन्यथा इंगित न करें)					
क्र. सं.	वर्ष / मद (शुद्ध)	2019-20	2020-21	2020-21 H1	2021-22 H1 (P)
A.	पूँजी खाता	83.2	63.7	17.3	65.6
A1.	विदेशी निवेश	44.4	80.1	31.5	25.4
A1.1	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)	43.0	44.0	23.9	21.2
A1.2	विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई)	1.4	36.1	7.6	4.3
A2.	ऋण	25.7	6.9	-1.1	10.4
A3.	बैंकिंग पूँजी	-5.3	-21.1	-9.0	4.4
A4.	रुपया ऋण सेवा	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
A5.	अन्य पूँजी	18.5	-2.1	-4.0	25.4
B.	पूँजी खाता शेष जीडीपी अनुपात (प्रतिशत) से	2.9	2.4	1.5	4.5

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

नोट: P: अनंतिम

चित्र 14: पूँजी खाता शेष और इसका जीडीपी से अनुपात




स्रोत: आरबीआई

नोट: आरडीएस: रुपया ऋण सेवा; P: अनंतिम

3.41 विदेशी निवेश, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) शामिल हैं, पूँजी खाते का सबसे बड़ा घटक है। पूर्व-महामारी स्तर से कम होने पर, शुद्ध विदेशी निवेश प्रवाह (FII) – मुख्य रूप से FDI द्वारा संचालित – वित्त वर्ष 21 की इसी अवधि की तुलना में H1: FY 22 में 25.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक कम हो गया।

3.42 एफडीआई पर नवीनतम समग्र डेटा नवंबर 2021 तक उपलब्ध है। जबकि शुद्ध एफडीआई में 24.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कम अंतर्वाह दर्ज किया गया, जबकि सकल एफडीआई अंतर्वाह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल–नवंबर, 2021 के दौरान कम इक्विटी निवेश के कारण कम होकर 54.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।। त्रैमासिक गतिविधि चित्र 15 में देखा जा सकता है।

चित्र 15: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश




स्रोत: आरबीआई

नोट: P: अनंतिम

3.43 जहां तक क्षेत्र-वार एफडीआई अंतर्वाह का संबंध है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ने अप्रैल सितंबर, 2021 में 7.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का उच्चतम एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह आकर्षित किया। एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह के मामले में सिंगापुर शीर्ष निवेश करने वाला देश बना हुआ है जबकि यूएसए का दूसरे स्थान पर है। शीर्ष पांच एफडीआई क्षेत्रों और निवेश करने वाले देशों की सूची अनुबंध IV में दी गई है।

3.44 एफपीआई पर नवीनतम समग्र डेटा दिसंबर 2021 तक उपलब्ध है। जैसा कि चित्र 16 में दर्शाया गया है, अमेरिकी मौद्रिक नीति सामान्यीकरण, वैश्विक ऊर्जा कीमतों में वृद्धि, कोविड-19 के नए रूपों के डर और मजबूत मुद्रास्फीति दबाव से संबंधित वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण एफपीआई प्रवाह अस्थिर रहा। जबकि अप्रैल-दिसंबर, 2021 के दौरान ऋण बाजार में शुद्ध खरीदारी देखी गई, पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा मूल्यांकन संबंधी चिंताओं और लाभ बुकिंग के कारण भारतीय इक्विटी बाजार से बहिर्वाह हुआ, जिससे 0.6 बिलियन का शुद्ध एफपीआई बहिर्वाह हुआ, जबकि यूएस का शुद्ध एफपीआई प्रवाह एक साल पहले इसी अवधि में + 28.5 बिलियन हुआ।

चित्र 16: विदेशी पोर्टफोलियो निवेश अस्थिर रहा



स्रोत: नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL)।

नोट: (i) कुल शुद्ध एफपीआई ऋण, इक्विटी, हाइब्रिड और स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (बीआरआर) का योग है, हालांकि, उपरोक्त चार्ट में केवल ऋण और इक्विटी को दर्शाया गया है क्योंकि वे एक साथ कुल शुद्ध एफपीआई के 90 प्रतिशत से अधिक के लिए खाते हैं। बैलेंस हाइब्रिड और बीआरआर है।

(ii) P: अनंतिम

3.45 अन्य प्रकार के पूँजी प्रवाहों में, बैंकिंग पूँजी ने वित्त वर्ष 22 की पहली छमाही में अनिवासी भारतीय जमा-खाते के अंतर्गत कम निवल अंतर्वाह के बावजूद, 4.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का शुद्ध अंतर्वाह दर्ज किया, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 9.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बहिर्वाह था। पुनर्भुगतान से अधिक नए संवितरण के साथ, ईसीबी का शुद्ध संवितरण (यानी, अंतर-कॉर्पोरेट उधार के लिए समायोजित) H1: FY 22 में US \$ 4-7 बिलियन था।


भुगतान संतुलन शेष और विदेशी मुद्रा भंडार

3.46 जैसा कि पहले विस्तार से बताया गया है, भारत का चालू खाता शेष, व्यापार घाटे के बढ़ने के कारण, वित्तीय वर्ष 22 की पहली छमाही में घाटे में बदल गया, जो अन्य कारणों के साथ-साथ समग्र मांग के व्यापक-आधारित पुनरुद्धार को दर्शाता है। हालांकि, इस चालू खाते के घाटे (सीएडी) को मजबूत पूँजी प्रवाह द्वारा पर्याप्त रूप से कुशन किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप एच1: वित्त वर्ष 22 में कुल भुगतान संतुलन (बीओपी) 63.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अधिशेष था। इससे एक संबंधित विदेशी मुद्रा भंडार विकास क्रम

में एक महत्वपूर्ण बिंदु(मील के पत्थर) 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया और सितंबर 2021 के अंत तक 635.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर को छू गया।

भारत के भुगतान संतुलन के प्रमुख घटकों में तिमाही प्रवृत्तियों को अनुबंध V में दर्शाया गया है। जबकि Q1: वित्त वर्ष 22 में अधिशेष भुगतान संतुलन चालू और पूँजी खाते में अधिशेष के कारण था Q2: वित्त वर्ष 22 में भुगतान अधिशेष, पूँजी खाते पर बड़े अधिशेष के चालू खाते पर घाटे की भरपाई से अधिक होने के कारण था (चित्र 17)।

चित्र 17: कुल भुगतान संतुलन और विदेशी मुद्रा भंडार



स्रोत: आरबीआई

नोट: (i) ऊपर दर्शाए गए विदेशी मुद्रा भंडार तिमाही की समाप्ति तिथि के अनुसार हैं।

(ii) 2021-22 की तीसरी तिमाही के लिए आयात का आरक्षित कवर अनंतिम है और तिमाही बीओपी जारी होने के बाद यह बदल जाएगा।

(iii) P: अनंतिम

3.47 2021-22 के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी वृद्धि हुई। विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 2021 के अंत में 633.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो मार्च 2021 के अंत में 577.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। हालांकि, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का आयात कवर दिसंबर 2021 के अंत में 17.4 से घटकर 13.2 महीने रह गया। मार्च 2021 के अंत में महीनों के रूप में घरेलू आर्थिक गतिविधि (चित्र 17 बी) में पिक-अप के साथ व्यापारिक आयात में वृद्धि हुई। 5 नवंबर 2021 के अंत तक, भारत चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक था।

3.48 भुगतान संतुलन में चालू खाता घाटा यह निर्धारित करता है कि देश में कितने शुद्ध पूँजी प्रवाह को अवशोषित किया जा सकता है या विकास के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह 2021-22 के दौरान प्रबंध नीय सीमा के भीतर होने की उम्मीद है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, भारत बाहरी क्षेत्र के संकट में पड़े बिना सकल घरेलू उत्पाद के 2.5-3.0 प्रतिशत के चालू खाते के घाटे को बनाए रख सकता है।

विनिमय दर में संचलन

3.49 भारतीय रूपये में 2020-21 में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की गिरावट आई है। हालांकि रूपये ने अप्रैल-दिसंबर, 2021 के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले दोनों दिशाओं में गति का प्रदर्शन किया, लेकिन मार्च 2021 की तुलना में दिसंबर 2021 में इसमें 3.4 प्रतिशत की गिरावट आई। हालांकि, रूपये का मूल्यहास अपने उभरते बाजार के समकक्ष जैसे कि तुर्की लीरा, अर्जेंटीना पेसो, थाई बहत और फिलीपीन


¹आयात कवर की गणना नवीनतम चार तिमाहियों के लिए आयात डेटा (बीओपी आधार) के आधार पर की जाती है। अक्टूबर-दिसंबर 2021 के लिए, डीजीसीआईएस द्वारा प्रदान किए गए अनंतिम आयात डेटा का उपयोग किया जाता है।

²पात्रा, एमडी (2021): ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं में विकास और विकास, आरबीआई, बुलेटिन, दिसंबर मार्च 2021 की तुलना में दिसंबर 2021 में यूरो, जापानी येन और पाउंड स्टर्लिंग के मुकाबले रूपया क्रमशः: 1.8 प्रतिशत, 1.3 प्रतिशत और 0.6 प्रतिशत बढ़ गया।

पेसो की तुलना में मामूली था, (चित्र 18)।

3.50 6-मुद्रा सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (NEER) (व्यापार-भारत) के संदर्भ में, रुपये में मार्च 2021 की तुलना में दिसंबर 2021 में 2.1 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (REER) के संदर्भ में इसमें 0.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई शर्तें (चित्र 19a)। इसी तरह, रुपये में मार्च 2021 की तुलना में दिसंबर 2021 में 40 मुद्रा सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईआर) के मामले में 1.6 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि 40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (REER) के मामले में 0.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो व्यापारिक भागीदारों के साथ व्यापक मुद्रास्फीति अंतर को दर्शाता है। (चित्र 19 b)।


चित्र 18: प्रमुख 'ईएमई' मुद्राओं के अमेरिकी डॉलर के मुकाबले विनिमय दर में उतार-चढ़ाव (नवंबर 2021 से नवंबर 2020 तक)



स्रोत: बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस)

नोट: *: ईएमई: उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं

चित्र 19: 6-मुद्रा और 40-मुद्रा का सूचकांक NEER और REER (व्यापार आधारित भार) (आधार वर्ष: 2015-16 = 100)



स्रोत: आरबीआई


शुद्ध अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति

3.51 देश के लचीलेपन को मापने का एक तरीका इसकी शुद्ध अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति को देखना है। नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन (आईआईपी) एक अर्थव्यवस्था के निवासियों की वित्तीय परिसंपत्तियों के मूल्य के बीच का अंतर है जो गैर-निवासियों पर दावा है और एक समय में गैर-निवासियों के लिए एक अर्थव्यवस्था के निवासियों की देनदारियों के बीच का अंतर है। यह शेष विश्व पर या तो शुद्ध दावे या शुद्ध देयता का प्रतिनिधित्व करता है।

3.52 भारत का शुद्ध आईआईपी सितंबर 2021 के अंत तक (-) सकल घरेलू उत्पाद का 11.3 प्रतिशत (332-US\$ बिलियन) था - मार्च 2019 के अंत से एक निरंतर सुधार - एक उच्च परिसंपत्ति-देयता अनुपात के नेतृत्व में, जो मार्च 2021 के अंत से सितंबर 2021 के अंत तक बढ़कर 73.6 प्रतिशत हो गया (चित्र 20)।

परिसंपत्ति और देयता अनुपात में सुधार आरक्षित परिसंपत्तियों के महत्वपूर्ण निर्माण के कारण हुआ है (Q4: FY21 और Q2: FY22 के बीच US + 58.4 बिलियन), जो एफडीआई, एफपीआई और अन्य निवेशों के कारण देनदारियों में निर्माण के लिए क्षतिपूर्ति से अधिक है।

चित्र 20: शुद्ध अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति (IIP)



स्रोत: आरबीआई नोट: P: अनंतिम

विदेशी कर्ज

3.53 सितंबर 2021 के अंत में भारत का विदेशी ऋण, 593.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर अनुमानित, जून 2021 के अंत के स्तर पर 22.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर (3.9 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। अमेरिकी डॉलर के मूल्यवृद्धि के कारण मूल्यांकन लाभ को छोड़कर, विदेशी ऋण में वृद्धि 22.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बजाय 23.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर होती। 218.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के विदेशी ऋण का सबसे बड़ा घटक वाणिज्यिक उधारी ने तिमाही दर तिमाही (क्यू-ओ-क्यू) सकारात्मक वृद्धि दर्ज की, जो एक तिमाही पहले के स्तर की तुलना में 2.5 प्रतिशत अधिक थी। एनआरआई जमा, दूसरा सबसे बड़ा घटक, 141.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर पिछली तिमाही के अंत के समान स्तर पर था। 97.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर तीसरा सबसे बड़ा घटक, अल्पकालिक व्यापार ऋण कमी करना जारी रखा। एक साथ, ये तीन घटक सितंबर, 2021 के अंत में कुल विदेशी ऋण का 77.2 प्रतिशत हैं। आईएमएफ (एसडीआर) 23.3 अरब अमेरिकी डॉलर पर जून के अंत के स्तर पर 17.6 अरब अमेरिकी डॉलर (310.8 प्रतिशत) तक बढ़ गया। 2021, मुख्य रूप से 23 अगस्त,

2021 को अतिरिक्त एसडीआर आवंटन को दर्शाता है।

3.54 भारत का विदेशी ऋण, जो मार्च 2021 के अंत में पूर्व-संकट स्तर को पार कर गया, सितंबर 2021 के अंत तक दृढ़ हो गया, एनआरआई जमाओं के उपरोक्त संकट स्तर से सहायता प्राप्त हुई और आईएमएफ द्वारा अतिरिक्त एसडीआर आवंटन का उल्लेख किया गया। दूसरी ओर, वाणिज्यिक उधार और अल्पकालिक व्यापार ऋण, जो विकास के प्रति संवेदनशील हैं, अभी भी महामारी-पूर्व स्तरों (तालिका 8) से नीचे बने हुए हैं।

तालिका 8: बकाया बाह्य ऋण

		दिसं-19	मार्च-20	जून-20	सितं-20 PR	दिसं-20 PR	मार्च-21 PR	जून-21 PR	सितं-21 P
1.	बहुपक्षीय	60.2	59.9 (-0.4)	64.7 (8.0)	67.0 (3.6)	68.1 (1.6)	69.7 (2.5)	70.2 (0.6)	71.4 (1.7)
2.	द्विपक्षीय	27.3	28.1 (2.9)	28.5 (1.6)	29.3 (2.7)	30.5 (4.3)	30.9 (1.3)	30.8 (-0.5)	30.9 (0.5)
3.	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	5.5	5.4 (-1.3)	5.5 (0.8)	5.6 (2.3)	5.7 (2.3)	5.6 (-1.6)	5.7 (0.6)	23.3 (310.8)
4.	व्यापार क्रेडिट	6.9	7.0 (1.9)	6.8 (-2.6)	7.0 (2.8)	6.5 (-7.5)	6.3 (-3.1)	5.7 (-8.8)	5.6 (-1.7)
5.	वाणिज्यिक उधार	223.1	219.5 (-1.6)	211.0 (-3.9)	206.8 (-2.0)	207.9 (0.5)	213.1 (2.5)	213.4 (0.2)	218.8 (2.5)
6.	एनआरआई जमा (एक वर्ष से अधिक)	133.1	130.6 (-1.9)	132.7 (1.6)	137.3 (3.4)	140.5 (2.3)	141.9 (1.0)	141.5 (-0.3)	141.6 (0.0)
7.	रुपया ऋण	1.1	1.0 (-5.2)	1.0 (-5.2)	1.0 (2.0)	1.0 (0.9)	1.0 (-2.2)	1.0 (-0.8)	1.0 (-1.6)
8.	कुल दीर्घकालिक ऋण	457.2	451.6 (-1.2)	450.2 (-0.3)	454.0 (0.8)	460.2 (1.4)	468.5 (1.8)	468.3 (-0.1)	492.5 (5.2)
9.	अल्पावधि ऋण	106.8	106.9 (0.1)	105.0 (-1.7)	102.8 (-2.1)	103.5 (0.7)	101.1 (-2.4)	102.5 (1.4)	100.6 (-1.9)
9a.	व्यापार संबंधित क्रेडिट	102.4	101.4 (-1.0)	101.2 (-0.2)	99.4 (-1.8)	99.6 (0.2)	97.3 (-2.4)	99.2 (2.0)	97.4 (-1.8)
	कुल (8+9)	564.0	558.4 (-1.0)	555.2 (-0.6)	556.8 (0.3)	563.8 (1.3)	569.6 (1.0)	570.8 (0.2)	593.1 (3.9)

स्रोत: आरबीआई, वित्त मंत्रालय, स्टाफ गणना

नोट: (i) तिमाही के अंत के लिए डेटा

(ii) कोष्ठकों में आंकड़े तिमाही-दर-तिमाही (क्यू-ओ-क्यू) विकास दर हैं

(iii) अंत-दिसंबर 2019 महामारी से पहले की तिमाही है

(iv) PR: आंशिक रूप से संशोधित; P: अनंतिम

3.55 जहां तक विदेशी ऋण की मुद्रा संरचना का संबंध है, अमेरिकी डॉलर मूल्यवर्ग का ऋण भारत के विदेशी ऋण का सबसे बड़ा घटक बना रहा, जिसमें सितंबर 2021 के अंत में 51 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी, जिसके बाद भारतीय रुपये में मूल्यवर्गित विदेशी ऋण में अन्य बातों के साथ-साथ, अनिवासी विदेशी रुपया खाते में निरंतर बड़ी वृद्धि के अलावा, भारतीय ऋण बाजार में एफपीआई निवेश के एक अंशांकित प्रोत्साहन के कारण प्रभावशाली वृद्धि देखी गई (खंड 2 में परिशिष्ट 8.4 देखें), तदनुसार, दूसरा सबसे बड़ा घटक होने के नाते, भारतीय रुपया मूल्यवर्ग का ऋण विनिमय दर के उतार-चढ़ाव से महत्वपूर्ण इन्सुलेशन प्रदान करता है।

3.56 ऊपर उल्लिखित मजबूत प्रवृत्तियों का लाभ उठाते हुए, प्रमुख बाहरी क्षेत्र की भेद्यता संकेतकों के सेट में

सुधार हुआ। ऋण सेवा (अर्थात्, मूलधन चुकौती और ब्याज भुगतान) सितंबर 2021 के अंत में वर्तमान प्राप्तियों के 4.7 प्रतिशत तक गिर गई, जबकि मार्च 2021 के अंत में 8.2 प्रतिशत की तुलना में, कम चुकौती और उच्च वर्तमान प्राप्तियों को दर्शाती है। कुल विदेशी ऋण में अल्पकालिक ऋण की हिस्सेदारी मार्च 2021 के अंत में 17.7 प्रतिशत से सितंबर 2021 के अंत में मामूली रूप से गिरकर 17.0 प्रतिशत हो गई। इसके अलावा, भंडार में एक बड़ी वृद्धि, हालांकि, अन्य बाहरी भेद्यता में सुधार हुआ। कुल विदेशी ऋण के लिए विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार के लिए अल्पकालिक ऋण, आदि जैसे संकेतक। विदेशी मुद्रा भंडार विदेशी ऋण के अनुपात के रूप में 2010 से 11 वर्षों के बाद 100 प्रतिशत को पार कर गया, और सितंबर के अंत तक 107.1 प्रतिशत पर रहा। 2021। विदेशी मुद्रा भंडार के लिए अल्पकालिक ऋण (मूल परिपक्वता) का अनुपात मार्च 2021 के अंत में 17.5 प्रतिशत से सितंबर 2021 के अंत में घटकर 15.8 प्रतिशत हो गया।

3.57 जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण के पिछले संस्करण में दर्ज है, मध्यम अवधि के दृष्टिकोण से, भारत का विदेशी ऋण एक उभरती बाजार अर्थव्यवस्था के लिए इष्टतम होने के अनुमान से कम है, जबकि हाल के वर्षों में भारत के बाहरी क्षेत्र के लचीलेपन की ओर इशारा करते हुए, विभिन्न बाहरी क्षेत्र की भेद्यता संकेतकों में सुधार हुआ है।

3.58 हाल के महीनों में, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं, विशेष रूप से अमेरिका में लगातार मुद्रास्फीति के दबाव के बीच महामारी से संबंधित प्रोत्साहन कार्यक्रम को कम करने से टेंपर टेंट्रम की कुछ आशंकाएं फिर से पैदा हो गई हैं। हालांकि, भारत का बाहरी क्षेत्र - मजबूत निर्यात, पूंजी प्रवाह, कम सीएडी और बाहरी वित्तपोषण आवश्यकताओं और उच्च विदेशी मुद्रा भंडार, विभिन्न बाहरी भेद्यता संकेतकों के साथ प्रबंधनीय सीमाओं के भीतर अच्छी तरह से समर्थन से है - इस बार उत्पन्न होने वाले किसी भी बाहरी झटके का सामना करने के लिए कहीं बेहतर तैयार है। आने वाले महीनों में विकसित अर्थव्यवस्थाओं द्वारा मौद्रिक नीति के रूख को सख्त करने का (बॉक्स 2)।

बॉक्स 2: 'टेपर विदाउट टेंट्रम्स': भारत का बाहरी क्षेत्र लचीलापन

फेडरल रिजर्व ने 2007-08 में वैश्विक वित्तीय संकट के लिए व्यापक नीति प्रतिक्रिया के हिस्से के रूप में मात्रात्मक आसान (क्यूई) के तहत परिसंपत्ति खरीद के एक कार्यक्रम की शुरुआत की। जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने कर्षण प्राप्त किया, क्यूई को खोलने के प्रयास में, 22 मई, 2013 को, फेड ने भविष्य की तारीख में संपत्ति की खरीद को कम करना शुरू कर देगा। दिनांक 3 नवंबर 2021 को फेडरल ओपन मार्केट कमेटी ने सर्वसम्मति से अपनी संपत्ति खरीद को कम करने के लिए मतदान किया। इसी के अनुरूप रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया (आरबीए) ने भी अपना यील्ड कर्व टारगेट छोड़ दिया है। जैसे-जैसे सरकारी ऋण पर प्रतिफल बढ़ता गया, आरबीए ने अप्रैल 2024 में परिपक्व होने वाले ऋण के लिए 10 आधार अंकों के अपने लक्ष्य का बचाव करने के लिए हस्तक्षेप नहीं करने का विकल्प चुना। बैंक ऑफ कनाडा ने हाल के महीनों में धीरे-धीरे अपनी संपत्ति खरीद को कम कर दिया है। इस प्रकार, व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण केंद्रीय बैंकों द्वारा लंबे समय से प्रतीक्षित टेपर प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिससे भारत के साथ, उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर संभावित रूप से अस्थिर करने वाले स्पिल-ओवर प्रभाव की चिंता को अकादमिक और नीति मंडल - के भीतर नवीनीकृत किया जा रहा है। इस बात के प्रमाण हैं कि, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत सहित ये उभरते बाजार 2013 से अपनी बाहरी आर्थिक और वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में सफल रहे हैं और बाहरी क्षेत्र पर टेपर के प्रभाव सीमित होंगे (बैरी ईचेनग्रीन एट अल (2021))।

भारत की बेहतर लचीलापन

वर्ष 2013 के टेंपर एपिसोड के बाद से, भारत के मुख्य बाहरी क्षेत्र स्थिरता संकेतकों में सुधार हुआ है (तालिका ख 2.1) उदाहरण के तौर पर, आयात के महीनों की संख्या के संदर्भ में आयात कवर का पारंपरिक मीट्रिक टेंपर टैट्रम के प्रकरण के बाद से दोगुने से अधिक है।

तालिका ख 2.1: भारत के लिए बाहरी सुभेद्यता संकेतक

(प्रतिशत जब तक अन्यथा इंगित न करें)			
सूचक	वैश्वक वित्तय संकट (FY 2009)	टेपर टैट्रम (FY 2014)	H1: FY 2022
बाहरी ऋण (US\$ बिलियन)	224.5	446.2	593.1
विदेशी मुद्रा भंडार (US\$ बिलियन)	252	304.2	633.6*
बाहरी ऋण जीडीपी अनुपात	20.7	23.9	20.1
अल्पावधि ऋण (RM) से कुल ऋण	38.8	39.7	43.2
कुल ऋण के लिए रियायती ऋण	18.7	10.4	8.6
कुल ऋण के लिए भंडार	112.2	68.2	107.1
अल्पकालिक ऋण (आरएम) के लिए भंडार	270.2	171.9	248.2
आयात का आरक्षित कवर (महीनों में)	9.8	7.8	14.6
ऋण सेवा अनुपात	4.4	5.9	4.7
शुद्ध आईआईपी/जीडीपी अनुपात	-5.8	-18.2	-11.3

स्रोत: आरबीआई के आंकड़ों के आधार पर

नोट: (i) *: 31 दिसंबर, 2021 को विदेशी मुद्रा भंडार (ii) RM: अवशिष्ट परिपक्वता

हाल के महीनों में बड़े विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि के कारण, भंडार से संबंधित भेद्यता संकेतक जैसे कि कुल विदेशी ऋण के लिए भंडार, अल्पकालिक ऋण के लिए भंडार (अवशिष्ट परिपक्वता), आयात का आरक्षित कवर, आदि ने वित्त वर्ष 2022 की पहली छमाही में वित्तीय वित्तीय वर्ष 2014- टेंपर-टैट्रम वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय सुधार दिखाया है। एक अन्य प्रमुख भेद्यता संकेतक यानी सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में शुद्ध आईआईपी घटकर (-) 11.3 प्रतिशत हो गया है, जबकि उक्त अवधि में (-) 18.2 प्रतिशत था। उक्त प्रकरण के बाद से विदेशी ऋण और जीडीपी अनुपात में भी गिरावट आई है। इसके अलावा, भारत ने 17 साल के अंतराल के बाद वित्त वर्ष 2020-21 में इसी तरह के अधिशेष के बाद वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के 0.9 प्रतिशत का चालू खाता अधिशेष देखा। दूसरी ओर, भारत ने 2012-13 में सकल घरेलू उत्पाद के 4.8 प्रतिशत के उच्चतम चालू खाता घाटे का अनुभव किया, जो पिछले वर्ष (2011-12) के दौरान 4.3 प्रतिशत के बाद था।

जाहिर है, भारतीय अर्थव्यवस्था ने टेपर की वर्तमान कड़ी में अब तक अधिक लचीलापन प्रदर्शित किया है। 2013 में टेंपर टैट्रम के तत्काल बाद में, भारत ने 23 मई-अगस्त 30, 2013 के दौरान पूंजी बाजारों से ₹79,375 करोड़ के पोर्टफोलियो बहिर्वाह का अनुभव किया, जिसमें इक्विटी बाजारों से ₹19,165 करोड़ और

ऋण बाजारों से ₹60,210 करोड़ शामिल थे। 3 नवंबर, 2021 को 'फेड' द्वारा परिसंपत्ति खरीद में कमी की नवीनतम घोषणा का पोर्टफोलियो प्रवाह पर अपेक्षाकृत कम प्रभाव पड़ा। नवंबर-जनवरी 20, 2022 की अवधि के दौरान कुल पोर्टफोलियो बहिर्वाह की राशि ₹34,178 करोड़ थी, जिसमें इक्विटी बाजारों से ₹29,168 करोड़ और ऋण बाजारों से ₹5,010 करोड़ शामिल हैं।⁷

नाजुक पांच देशों में होने के बाद वर्तमान प्रकरण के दौरान 4 सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार धारक होने के परिवर्तन के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण की प्रक्रियाके जोर पकड़ने के साथ, अनेक प्रकार के चालों के लिए बहुत सारे नीतिगत उपायों के अतिरिक्त लाभ के साथ खड़ी है।⁷

संदर्भ

बैरी आइचेंग्रीन, पूनम गुप्ता और ऋषभ चौधरी (2021): द टेंपर दिस टाइम; एनसीईआर वर्किंग पेपर, नवंबर।

⁷Fragile Five countries (Indonesia, South Africa, Brazil, Turkey and India) were identified to be most at risk when tapering began in 2013.

तालिका 1: शीर्ष 10 कृषि निर्यात उत्पाद

क्रम	पद्धति	2019-20	2020-21	2020.21 (अप्रैल-नवंबर)	(बिलियन अमेरिकी \$)
					2021.22 (अप्रैल-नवंबर) (P)
1	समुद्री उत्पाद	6.7	6.0	4.0	5.4
2	चावल (बासमती के अलावा)	2.0	4.8	2.7	3.9
3	मसाले	3.6	4.0	2.6	2.7
4	चीनी	2.0	2.8	1.6	2.3
5	भैंस का मांस	3.2	3.2	2.1	2.2
6	चावल-बासमती	4.4	4.0	2.7	2.1
7	अपशिष्ट सहित कच्चा कपास	1.1	1.9	0.8	1.5
8	गेहूं	0.1	0.6	0.2	1.2
9	अरंडी का तेल	0.9	0.9	0.6	0.8
10	विविध संसाधित मद्दें	0.6	0.9	0.5	0.7
	कुल कृषि निर्यात	35.6	41.9	25.2	31.0

स्रोत: वाणिज्य विभाग

अनुलग्नक-II

तालिका 2: भारत का सेवाओं का निर्यात

क्र. सं.	क्षेत्र	(बिलियन अमेरिकी डॉलर)									
		2019-20				2020-21				2021-22 (P)	
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
1	दूसरों के स्वामित्व वाले भौतिक निविदियों पर विनिर्माण सेवाएं	33	58	76	66	77	68	49	102	83	75
2	अनुरक्षण और मरम्मत	45	44	64	41	32	35	38	54	58	74
3	परिवहन	5343	5181	5448	5016	4805	5368	5602	6080	6733	7584
4	यात्रा (ट्रेवल)	6950	7643	8545	6860	1868	2138	2170	2308	1597	2147
5	सन्निर्माण	754	677	734	931	659	589	619	752	583	716
6	बीमा और पेंशन सेवाएं	588	602	617	623	564	590	575	647	772	796
7	वित्तीय सेवाएं	1287	1239	1183	1024	1009	1003	1068	1258	1201	1303
8	बौद्धिक संपदा के उपयोग के लिए शुल्क	319	248	184	182	399	313	359	238	191	202
9	दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं जिनमें से: कंप्यूटर सम्बन्धी सेवाएं	23604	23947	24592	23967	23396	25515	26593	27574	28489	30823
		22811	23247	23760	23285	22623	24791	25782	26802	27602	29965
10	अन्य व्यापार सेवाएं	11475	10878	11889	11474	11282	11624	12930	13324	12962	13858
11	व्यक्तिगत, सांस्कृतिक और मनोरंजक सेवाएं	532	551	535	588	500	530	579	727	647	713
12	सरकारी माल और सेवाएं द.प.म.	151	169	157	182	148	144	179	159	203	217
13	अन्य द.प.म.	1114	1539	1134	2105	2212	1875	2579	2781	2698	2915
	कुल	52196	52777	55158	53060	46953	49793	53339	56004	56217	61421

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

नोट: (i) भुगतान संतुलन पर नवीनतम आईएमएफ मैनुअल (बीपीएम 6) के अनुसार, “अन्य व्यावसायिक सेवाओं” को तीन व्यापक शीर्षों के तहत वर्गीकृत किया गया है: अनुसंधान और विकास सेवाएं; पेशेवर और प्रबंधन परामर्श सेवाएं और तकनीकी, व्यवसाय से संबंधित और अन्य व्यापारिक सेवाएं।

(ii) P: अनंतिम

अनुलग्नक III

तालिका 3: भारत में सेवाओं का आयात

S. No.	क्षेत्र	(US\$ मिलियन)									
		2019-20				2020-21				2021-22	
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
1	दूसरों के स्वामित्व वाले भौतिक आदानों पर विनिर्माण सेवाएं	18	33	9	8	6	11	5	6	9	16
2	रखरखाव और मरम्मत सेवाएं अर्थात्	413	253	207	309	128	204	291	211	127	418
3	परिवहन	6104	6009	6411	5761	4216	4759	5147	5633	6616	8181
4	यात्रा	6203	6031	5569	4208	2766	2764	2836	3141	2885	3919
5	निर्माण	754	714	570	708	625	563	705	713	892	715
6	बीमा और पेशन सेवाएं	409	354	549	426	378	537	577	566	428	575
7	वित्तीय सेवाएं	519	594	550	1256	1062	1107	1192	1402	1118	1463
8	बैंडिक संपदा के उपयोग के लिए शुल्क (एनआई)	2091	1776	2197	1641	1847	1456	2297	2107	1972	2189
9	दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं जिनमें से: कंप्यूटर सेवाएं	2207	2654	2712	2638	2269	3290	2810	3909	3017	3651
10	अन्य व्यावसायिक सेवाएं	11715	11211	12027	11928	11514	12354	12807	12847	11635	12457
11	व्यक्तिगत, सांस्कृतिक और मनोरंजक सेवाएं	631	923	757	819	347	817	768	878	804	1243
12	सरकारी सामान और सेवाएं अर्थात्	307	298	218	284	330	190	260	241	236	198
13	अन्य	750	984	1503	1046	705	655	408	865	667	811
	कुल	32120	31836	33280	31033	26195	28707	30103	32520	30406	35836

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

नोट: (i) भुगतान संतुलन पर नवीनतम आईएमएफ मैनुअल (बीपीएम 6) के अनुसार, 'अन्य व्यावसायिक सेवाओं' को तीन व्यापक शीर्षों के तहत वर्गीकृत किया गया है: अनुसंधान और विकास सेवाएं; पेशेवर और प्रबंधन परामर्श सेवाएं और तकनीकी, व्यवसाय से संबंधित और अन्य व्यापारिक सेवाएं।

(ii) P: अनंतिम

अनुलग्नक-IV

तालिका 4: उच्चतम एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह आकर्षित करने वाले क्षेत्र

क्रम	क्षेत्र	(अमेरिकी बिलियन \$)				शेयर (प्रतिशत में)			
		2019-20	2020-21	2020-21 H1	2021-22 H1	2019-20	2020-21	2020-21 H1	2021-22 H1
1	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर	7.7	26.1	17.6	7.1	15.4	43.8	58.5	22.9
2	ऑटोमोबाइल उद्योग	2.8	1.6	0.4	4.9	5.7	2.7	1.4	15.8
3	सेवा क्षेत्र”	7.9	5.1	2.3	3.2	15.7	8.5	7.5	10.1
4	ट्रेडिंग	4.6	2.6	0.9	2.1	9.2	4.4	3.2	6.6
5	दूरसंचार	4.4	0.4	0.0	0.4	8.9	0.7	0.0	1.2
	उक्त का योग	27.4	35.8	21.2	17.6	54.8	60.1	70.6	56.6
	कुल एफडीआई	50.0	59.6	30.0	31.2	100	100	100	100

स्रोत: उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT)

नोट: (i) ” सेवा क्षेत्र में वित्तीय, बैंकिंग, बीमा, गैर-वित्तीय/व्यवसाय, आउटसोर्सिंग, अनुसंधान एवं विकास, कूरियर, टेक शामिल हैं।
(ii) आंकड़े अनंतिम हैं।

तालिका 5: शीर्ष निवेश करने वाले देश एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह

क्रम	देश	(अमेरिकी बिलियन \$)				शेयर (प्रतिशत में)			
		2019-20	2020-21	2020-21 H1	2021-22 H1	2019-20	2020-21	2020-21 H1	2021-22 H1
1	सिंगापुर	14.7	17.4	8.3	8.1	29.4	29.2	27.7	25.9
2	अमेरीका	4.2	13.8	7.1	4.6	8.4	23.2	23.7	14.9
3	मॉरीशस	8.2	5.6	2.0	4.3	16.5	9.5	6.7	13.9
4	नीदरलैंड	6.5	2.8	1.5	2.1	13.0	4.7	5.0	6.9
5	जापान	3.2	2.0	0.7	0.8	6.5	3.3	2.2	2.6
	उक्त का योग	36.9	41.6	19.6	20.0	73.8	69.8	65.3	64.1
	सभी देश	50.0	59.6	30.0	31.2	100.0	100.0	100.0	100.0

स्रोत: उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT)

नोट: (i) ” सेवा क्षेत्र में वित्तीय, बैंकिंग, बीमा, गैर-वित्तीय/व्यवसाय, आउटसोर्सिंग, अनुसंधान एवं विकास, कूरियर, टेक शामिल हैं।
(ii) आंकड़े अनंतिम हैं।

तालिका 6: भारत के भुगतान संतुलन के प्रमुख घटक

वर्ष / मद (शुद्ध)	(बिलियन अमेरिकी \$)									
	2019-20				2020-21				2021-22 (P)	
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
A. चालू खाता	-15.0	-7.6	-2.6	0.6	19.1	15.3	-2.2	-8.2	6.5	-9.6
A 1 व्यापारिक व्यापार संतुलन	-46.8	-39.6	-36.0	-35.0	-11.0	-14.8	-34.6	-41.7	-30.7	-44.4
A 1 a वस्तु निर्यात	82.7	80.0	81.2	76.5	52.2	75.6	77.2	91.3	97.4	104.8
A 1b वस्तु आयात	129.5	119.6	117.3	111.6	63.2	90.4	111.8	133.0	128.2	149.3
A 2. अदृश्य	31.8	32.1	33.4	35.6	30.0	30.1	32.4	33.6	37.2	34.8
A 2.a) सेवाएँ	20.1	20.9	21.9	22.0	20.8	21.1	23.2	23.5	25.8	25.6
A 2.b) स्थानांत्रण	18.0	20.0	18.9	18.4	17.0	18.4	19.3	18.8	18.9	18.9
A 2.c) आय	-6.3	-8.8	-7.4	-4.8	-7.7	-9.4	-10.1	-8.7	-7.5	-9.7
B) पूँजी खाता	28.6	13.6	23.6	17.4	1.4	15.9	34.1	12.3	25.5	40.1
B.1) विदेशी निवेश	18.8	9.8	17.6	-1.8	0.1	31.4	38.6	10.0	12.1	13.3
B.1.a) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	14.0	7.3	9.7	12.0	-0.5	24.4	17.4	2.7	11.7	9.5
B.1.b विदेशी पोर्टफोलियों निवेश	4.8	2.5	7.8	-13.7	0.6	7.0	21.2	7.3	0.4	3.9
B.2) ऋण	9.6	3.1	3.1	9.9	2.8	-3.9	0.3	7.7	2.8	7.6
B.2.a) बाहरी सहायता	1.5	0.4	1.3	0.6	4.1	1.9	1.2	4.0	0.3	1.1
B.2.b) व्यापारिक ऋण (MT & LT)	6.1	3.3	3.2	10.3	-1.2	-4.0	-1.1	6.1	0.6	4.1
B.2.c) भारत को अल्पकालिक ऋण	2.0	-0.6	-1.4	-1.0	-0.2	-1.8	0.2	-2.3	1.9	2.4
B.3) बैंकिंग पूँजी	3.4	-1.8	-2.3	-4.6	2.2	-11.3	-7.6	-4.4	4.1	0.4
B.4) रूपया ऋण सेवा	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0
B.5) अन्य पूँजी	-3.1	2.5	5.2	13.8	-3.7	-0.3	2.8	-1.0	6.6	18.8
C) त्रुटी और चूक	0.4	-0.9	0.6	0.9	-0.6	0.4	0.6	-0.7	-0.2	0.7
D) समग्र संतुलन	14.0	5.1	21.6	18.8	19.8	31.6	32.5	3.4	31.9	31.2
E) विदेशी मुद्रा भंडार (बढ़ना - / घटना +)	-14.0	-5.1	-21.6	-18.8	-19.8	-31.6	-32.5	-3.4	-31.9	-31.2

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

नोट: P: अनंतिम